



11<sup>th</sup> February, 2021

Ref. No.: 101424/S/O/L-1/2020-21

The Manager,  
Listing/Market Operation,  
National Stock Exchange of India Ltd.,  
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,  
Bandra – Kurla Complex,  
Bandra (E),  
Mumbai – 400 051

The Manager,  
Corporate Relationship Department,  
BSE Limited,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai – 400 001

**NSE Code – ASAHIINDIA**

**BSE Code – 515030**

**Sub: Publication of unaudited financial results for the third quarter and nine months ended 31<sup>st</sup> December, 2020**

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to provisions of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of unaudited financial results of the Company for the third quarter and nine months ended 31<sup>st</sup> December, 2020, as published in “Business Standard”, all editions and “Veer Arjun”, New Delhi on 11<sup>th</sup> February, 2021.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours truly,  
For Asahi India Glass Ltd.,

**Gopal Ganatra**  
**Executive Director**  
**General Counsel & Company Secretary**  
**Membership No.: F7090**

Encl.: As above

**Asahi India Glass Ltd.**

Corporate Office: 5th, 6th & 8th Floor,  
Tower-B, Global Business Park  
Mehrauli -Gurgaon Road  
Gurgaon- 122002 (India)  
Tel.: +91 124 4062212-19  
Fax: +91 124 4062244, 4062288  
Corporate Identity Number: L26102DL1984PLC019542  
website : www.aisglass.com

Registered Office: Unit No.203 to 208, Tribhuvan Complex,  
Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi- 110065

**ASAHIINDIAGLASS LIMITED**  
 CIN: L26102DL1984PLC019542  
 Registered Office: Unit No. 203-208, Tribhuvan Complex, Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi - 110 065. Phone: (011) 49454900  
 Corporate Office: 5<sup>th</sup> Floor, Tower B, Global Business Park, Mehrauli - Gurgaon Road, Gurugram - 122 002 (Haryana)  
 Phone: (0124) 4062212-19, Fax: (0124) 4062244/88  
 Email: investorrelations@aisglass.com. Website: www.aisglass.com

**UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE THIRD QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31<sup>st</sup> DECEMBER, 2020**  
 (? Lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter ended	Period ended	Quarter ended
		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
		Unaudited	Unaudited	Unaudited
1	Total Income from Operations	75,507	1,62,762	68,832
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	11,220	7,246	5,036
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	11,220	7,246	4,685
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	7,337	4,648	3,155
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	7,411	4,728	3,132
6	Equity Share Capital	2,431	2,431	2,431
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	1,27,793		
8	Earnings Per Share (of ₹ 1/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised)			
	(a) Basic	3.04	1.99	1.32
	(b) Diluted	3.04	1.99	1.32

**KEY STANDALONE FINANCIAL INFORMATION FOR THE THIRD QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31<sup>st</sup> DECEMBER 2020**  
 (? Lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter ended	Period ended	Quarter ended
		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
		Unaudited	Unaudited	Unaudited
1	Total Income from Operations	74,232	1,60,151	68,019
2	Profit before tax	11,372	8,388	5,011
3	Profit after tax	7,345	5,411	3,325

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of BSE and NSE at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) & [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively and on company's website at [www.aisglass.com](http://www.aisglass.com).

2. The above financial results have been reviewed by the Audit & Risk Management Committee on 9<sup>th</sup> February 2021 and approved by the Board of Directors at their meeting held on 10<sup>th</sup> February 2021.

3. The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016, recognition and measurement principles in Ind AS 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.

For and behalf of the Board of Directors  
 Place : Gurugram  
 Date : 10<sup>th</sup> February, 2021  
 Sanjay Labroo  
 Managing Director & Chief Executive Officer

**FOSECO INDIA LIMITED**  
 Registered Office : Gat Nos 922 & 923, Sanaswadi, Taluka Shirur, District Pune-412208.  
 Tele: +91 2137 668100, Fax: +91 2137 668160  
 Website : [www.fosecointia.com](http://www.fosecointia.com) E-mail ID: investor.grievance@vesuvius.com  
 Corporate Identity Number: L24294PN1958PLC011052  
**An ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 Accredited Company**

**Statement of financials results for the quarter and year ended 31 December 2020**  
 (All figures in Rupees Lakhs)

Particulars	Current	Corresponding	Current
	3 Months Ended	3 months ended in the previous year	Accounting Year Ended
	31-Dec-2020 Unaudited	31-Dec-2019 Unaudited	31-Dec-2020 Audited
1 Total Income from Operations (gross)	8,406.91	7,568.52	25,735.96
2 Net Profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	977.10	993.97	2,108.85
3 Net Profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	977.10	993.97	2,108.85
4 Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	719.46	641.98	1,543.68
5 Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	688.51	575.08	1,454.26
6 Paid-up Equity Share Capital (Rs.10/-share face-value)	638.65	638.65	638.65
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the current year			17,626.06
8 Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations) (of Rs. 10/- each) - Basic & Diluted	11.27	10.05	24.17

**NOTES**

1. The results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Company's Board of Directors at their respective meetings held on February 10<sup>th</sup>, 2021. The statutory auditors have carried out the audit for the year ended 31 December 2020 and have issued an unmodified opinion.

2. Figures of the quarter ended 31 December 2020 and 31 December 2019 are the balancing figures between audited figures in respect of the relevant full financial year and the published year to date figures up to third quarter of relevant financial year.

3. The Company has only one reportable segment, metallurgical products and services, in accordance with Ind AS 108 - "Operating Segments", notified pursuant to the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015.

4. The Board of Directors of the Company has recommended payment of a final dividend of Rs. 10/- (100%) on a paid-up equity share of Rs. 10/- each for the financial year ended 31 December 2020, subject to the Shareholders' approval at the forthcoming Annual General Meeting. This in addition to the interim dividend aggregating to Rs. 5/- (50%) per share, brings the cumulative dividend for the financial year to Rs. 15/- (150%) per share.

5. The Company has considered the possible effects that may result from the COVID-19 pandemic in the preparation of the annual financial results including the recoverability of carrying amounts of financial and non-financial assets. In developing the assumptions relating to the possible future uncertainties in the global economic conditions because of this pandemic, Management has taken into account internal and external sources of information including economic forecasts and related information and expects that the carrying amount of these assets are fair and reasonable. The impact of the pandemic might be different from that estimated as on the date of approval of this results.

6. The managerial remuneration paid to the former Managing Director of the Company during the year ended December 31, 2020, amounted to Rs. 508.66 lakhs including retirement benefits of Rs 234.59 lakhs, which exceeds the prescribed limit under Section 197 read with Schedule V to the Companies Act, 2013 by Rs. 256.30 lakhs, in view of "inadequacy of profit" computed under Section 198 of the Act. As per the provisions of the Companies Act, 2013 the excess remuneration paid will be subject to the approval of the shareholders by way of a special resolution at the ensuing Annual General Meeting, which is being sought.

7. Previous period/year figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary.

8. The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of financial results are available on the website of the Company [www.fosecointia.com](http://www.fosecointia.com) and also on the websites of the Stock Exchanges, namely BSE Limited, [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), and the National Stock Exchange of India Limited, [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

For FOSECO INDIA LIMITED  
 Date : 10<sup>th</sup> February 2021  
 Place: Pune  
 Dr. Ujjal Bhattacharjee  
 Director  
 DIN : 08083932

**SHYAMAINFOSYS LIMITED**  
 CIN: L24235MH1996PLC057150  
 Regd. Office: 3<sup>rd</sup> Floor, Plot No.395/97, Futia Building, Kalbadevi, Mumbai - 400002.  
 Tel No.: (033) 22420751 Email: [shyamainfosys57@gmail.com](mailto:shyamainfosys57@gmail.com)  
 Website: [www.shyamainfosys.co.in](http://www.shyamainfosys.co.in)

**NOTICE**

With reference to SEBI letter no. SEBI/HO/SD/OW/P/2017/18183 dated August 07, 2017 inter alia providing BSE LTD ("Exchange") a list of 331 suspected shell companies and directing Exchange to take various actions / steps against such companies.

Exchange vide its order reference no. L/SURV/OFL/KM/201819/SHELL/COMP/531219/1 dated April 16, 2018 inter alia recommending forensic audit of the Company and thereafter vide its letter bearing reference no. USURV/OFL/KM/2018-19/SHELL/COMP/531219/1 dated Nov 16, 2018 appointed Secmark Consultancy Pvt LTD to carry out the forensic audit of the Company.

The Exchange vide its letter no. L/SURV/OFL/KM/201819/SHELL/COMP/531219/1/FL dated Nov 11, 2020 reverted the trading in securities of the Company to "STAGE VI" for non-submission of required documents pertaining to the audit.

The Exchange via Notice no. 20201214-11 dated Dec 14, 2020 suspended the securities of the Company w.e.f from Dec 15, 2020 until further notice.

The Company has initiated the process of submitting the required documents to the Exchange in order to revoke the suspension of trading in securities of the company and ask the Exchange for reconducting the Forensic Audit of the Company.

This is for your information and records directed to all the members of the Company, stakeholders, bankers, employees and related persons or entities of the Company.

For Shyama Infosys Limited  
 SO/-  
 Samir Biswas  
 Managing Director  
 DIN: 07834496

Place: Mumbai  
 Date: 10.02.2021

**LOTUS EYE HOSPITAL AND INSTITUTE LIMITED**  
 CIN: L85110TZ1997PLC007783  
 Regd. Office: SF No.770/12, Avinashi Road, Civil Aerodrome Post, Coimbatore - 641 014.  
 PHONE NO.: 0422-4229900, 4229999, FAX: 0422-4229933,  
 E-MAIL: [info@lotuseye.org](mailto:info@lotuseye.org), WEBSITE: [www.lotuseye.org](http://www.lotuseye.org)

**EXTRACTS OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/ NINE MONTHS ENDED 31<sup>st</sup> DECEMBER, 2020**  
 Rs. in Lakhs

Particulars	Quarter Ended on	Quarter Ended on	Nine months
	31-12-2020 (Unaudited)	30-09-2020 (Unaudited)	31-12-2020 (Unaudited)
1 Total income	1,007.29	739.28	2,235.79
2 Net Profit / (Loss) from ordinary activities before tax	125.91	6.62	64.20
3 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	105.34	7.73	46.10
4 Other Comprehensive Income	2.09	1.52	5.05
5 Total Comprehensive Income for the period	107.43	9.25	51.15
4 Equity Share Capital	2,079.63	2,079.63	2,079.63
5 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)			
Basic:	0.51	0.04	0.22
Diluted:	0.51	0.04	0.22
6 Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs.10/-each)			
Basic:	0.51	0.04	0.22
Diluted:	0.51	0.04	0.22

Notes:  
 1. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 09<sup>th</sup> February, 2021.  
 2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Nine months' Financial Results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the Quarter and Nine months period ended December, 31 2020 are available on the Stock Exchange websites, [www.bseindia.com/](http://www.bseindia.com/) [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and the Company's website [www.lotuseye.org](http://www.lotuseye.org).

For and on behalf of Board of Directors  
 LOTUS EYE HOSPITAL AND INSTITUTE LIMITED  
 Sd/- Ms. Sangeetha Sundaramoorthy  
 Managing Director  
 Coimbatore  
 09.02.2021

**Khadims®**  
**KHADIM INDIA LIMITED**  
 Registered Office: "Kankaria Estate", 5th Floor, 6, Little Russell Street, Kolkata - 700071, West Bengal, India  
 Website: [www.khadims.com](http://www.khadims.com)  
 Tel No: +91 33 4009 0501; Fax No: +91 33 4009 0500  
 e-mail: [compliance@khadims.com](mailto:compliance@khadims.com)  
 CIN: L19129WB1981PLC034337

**Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2020**

Sl. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		3 months ended	9 months ended	Corresponding	3 months ended	9 months ended	Corresponding
		31st December, 2020	31st December, 2020	31st December, 2019	31st December, 2020	31st December, 2020	31st December, 2019
1.	Total Income from Operations	1,740.82	3,562.27	1,747.62	1,740.82	3,562.27	1,747.62
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	34.97	(455.77)	(139.62)	34.97	(455.83)	(139.63)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	34.97	(455.77)	(139.62)	34.97	(455.83)	(139.63)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	44.38	(444.62)	(131.97)	44.38	(444.68)	(131.98)
5.	Total Comprehensive Income / (Loss) for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive (Loss) / Income (after tax)]	44.29	(444.88)	(133.63)	44.28	(444.95)	(133.64)
6.	Equity Share Capital	179.70	179.70	179.70	179.70	179.70	179.70
7.	Earnings per equity share (of Rs.10/- each) (not annualised)						
	1- Basic (Rs.)	2.47	(24.74)	(7.34)	2.47	(24.75)	(7.34)
	2- Diluted (Rs.)	2.47	(24.74)	(7.34)	2.47	(24.75)	(7.34)

Note:  
 The above is an extract of the detailed format of Statement of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed financial results and this extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on 10<sup>th</sup> February, 2021. The full format of the Statement of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Company's website ([www.khadims.com](http://www.khadims.com)) and on the websites of the National Stock Exchange of India Limited ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)).

For and on behalf of the Board of Directors  
 Place: Kolkata  
 Date : February 10, 2021  
 Siddhartha Roy Burman  
 Chairman & Managing Director  
 DIN : 00043715

**Bata**  
**BATA INDIA LIMITED**  
 REGD. OFFICE: 27B, CAMAC STREET, 1<sup>st</sup> FLOOR, KOLKATA 7000161 CIN: L19201WB1931PLC007261  
 Telephone: (033) 23014400, Fax: (033) 22895748, E-mail: [share.dept@bata.com](mailto:share.dept@bata.com), Website: [www.bata.in](http://www.bata.in)

**EXTRACT FROM THE STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31<sup>st</sup> DECEMBER, 2020**

S.No.	Particulars	STANDALONE					CONSOLIDATED						
		3 months ended	3 months ended	3 months ended	Nine months ended	Nine months ended	Year ended	3 months ended	3 months ended	3 months ended	Nine months ended	Nine months ended	Year ended
		31st December 2020	30th September 2020	31st December 2019	31st December 2020	31st December 2019	31st March 2020	31st December 2020	30th September 2020	31st December 2019	31st December 2020	31st December 2019	31st March 2020
1	Total income from operations	6,279.45	3,822.00	8,467.05	11,969.56	24,854.84	31,222.92	6,288.42	3,823.17	8,478.45	11,982.76	24,871.40	31,247.91
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	400.95	(585.06)	1,747.01	(1,534.11)	4,277.03	4,850.77	407.36	(584.09)	1,758.29	(1,524.10)	4,290.48	4,872.36
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	354.85	(585.06)	1,747.01	(1,580.21)	4,277.03	4,850.77	361.26	(584.09)	1,758.29	(1,570.20)	4,290.48	4,872.36
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	257.97	(443.90)	1,172.03	(1,197.19)	2,893.08	3,269.15	264.17	(443.16)	1,162.89	(1,187.84)	2,905.46	3,289.53
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	265.45	(427.83)	1,164.58	(1,174.39)	2,871.51	3,248.88	271.65	(427.09)	1,175.24	(1,165.04)	2,883.89	3,269.26
6	Equity Share Capital	642.64	642.64	642.64	642.64	642.64	642.64	642.64	642.64	642.64	642.64	642.64	642.64
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)						18,323.15						18,296.64
8	Earning / (Loss) per share (of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualized- Basic & Diluted (except for yearly figures))	2.01	(3.45)	9.12	(9.31)	22.51	25.44	2.06	(3.45)	9.20	(9.24)	22.61	25.59

Notes:  
 a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) viz., [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) & [www.cse-india.com](http://www.cse-india.com) and also on the website of the Company [www.bata.in](http://www.bata.in).  
 b) The Company's performance for the quarter has improved over the quarter ended 30th September 2020. Further, the Company has made detailed assessment of the recoverability and carrying values of its assets comprising property, plant and equipment, inventories, receivables and other current assets as at the period end and on the basis of evaluation, has concluded that no material adjustments are required in the financial results. Given the uncertainties associated with nature, condition and duration of COVID-19, the impact assessment on the Company's financial statements will be continuously made and provided for as required.  
 c) The Company has elected to apply the practical expedient of not assessing the rent concessions as a lease modification, as per MCA notification dated 24th July 2020 on IND-AS 116 for rent concessions which are granted due to COVID-19 pandemic. According to the notification, total rent concessions confirmed in the quarter ended 31st December 2020 of Rs. 85.61 million has been netted off from rent expenses. Further, out of total rent concessions confirmed for the nine months ended 31st December 2020 of Rs. 861.37 million (including Rs. 38.39 million unconditional rent concessions pertaining to subsequent quarters), Rs. 560.95 million has been accounted under rent expenses and balance of Rs. 300.42 million is reported under Other Income.  
 d) Net profit / (Loss) before tax for the quarter and nine months ended 31st December 2020 includes exceptional item of Rs. 46.10 million representing one time expense for Voluntary Retirement Scheme (VRS) offered at manufacturing facilities and Company's retail stores.

For and on the behalf of the Board of Directors  
 Gurugram  
 10.02.2021  
 Ram Kumar Gupta  
 DIRECTOR FINANCE & CFO  
 Sandeep Kataria  
 WHOLE-TIME DIRECTOR & CEO

**NEW ARRIVALS**  
**STEP INTO 2021 WITH A MAKEOVER**  
 Surprisingly Bata.  
 Discover Casual & Sneaker styles in-store & on [bata.in](http://bata.in)

बजट में गरीबों, बेरोजगारों की अनदेखी, किसानों के मन की बात सुने सरकार : विपक्ष

केंद्र व राज्यों पर एयर इंडिया का 498 करोड़ बकाया : पुरी

वीर अर्जुन समाचार क्यूरी
नई दिल्ली। राज्यसभा में बुधवार को कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने सरकार पर आम बजट में गरीबों एवं बेरोजगारों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की किसानों के मन की बात सुनने हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य एएमएसपी के लिए कानून लाना चाहिए। हालांकि सपासका की ओर से इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा गया कि बजट लक्ष्यों को समर्पित एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने वाला है।

वीर अर्जुन समाचार क्यूरी
नई दिल्ली। राज्यसभा में बुधवार को कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने सरकार पर आम बजट में गरीबों एवं बेरोजगारों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की किसानों के मन की बात सुनने हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य एएमएसपी के लिए कानून लाना चाहिए। हालांकि सपासका की ओर से इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा गया कि बजट लक्ष्यों को समर्पित एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने वाला है।



वीर अर्जुन समाचार क्यूरी
नई दिल्ली। राज्यसभा में बुधवार को कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने सरकार पर आम बजट में गरीबों एवं बेरोजगारों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की किसानों के मन की बात सुनने हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य एएमएसपी के लिए कानून लाना चाहिए।

किसानों के मन की बात सुने सरकार : विपक्ष
किसानों के मन की बात सुने सरकार : विपक्ष
किसानों के मन की बात सुने सरकार : विपक्ष
किसानों के मन की बात सुने सरकार : विपक्ष

वीर अर्जुन समाचार क्यूरी
नई दिल्ली। राज्यसभा में बुधवार को कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने सरकार पर आम बजट में गरीबों एवं बेरोजगारों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की किसानों के मन की बात सुनने हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य एएमएसपी के लिए कानून लाना चाहिए।

वीर अर्जुन समाचार क्यूरी
नई दिल्ली। राज्यसभा में बुधवार को कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने सरकार पर आम बजट में गरीबों एवं बेरोजगारों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की किसानों के मन की बात सुनने हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य एएमएसपी के लिए कानून लाना चाहिए।



वीर अर्जुन समाचार क्यूरी
नई दिल्ली। राज्यसभा में बुधवार को कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने सरकार पर आम बजट में गरीबों एवं बेरोजगारों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की किसानों के मन की बात सुनने हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य एएमएसपी के लिए कानून लाना चाहिए।

वीर अर्जुन समाचार क्यूरी
नई दिल्ली। राज्यसभा में बुधवार को कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने सरकार पर आम बजट में गरीबों एवं बेरोजगारों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की किसानों के मन की बात सुनने हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य एएमएसपी के लिए कानून लाना चाहिए।

बंदरगाहों का निजीकरण नहीं होगा : केंद्र

वीर अर्जुन समाचार क्यूरी
नई दिल्ली। पंत प्रवेशन मंत्री मनुसुख मंडाविया ने बुधवार को विपक्ष के इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार देश के प्रमुख बंदरगाहों को निजी हाथों में सौंपने का इरादा नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि बंदरगाहों का निजीकरण नहीं होगा और सरकार कर्मचारियों के कल्याण का ध्यान रखेगी।

Public Notice

Public Notice
Be it known to all that my client Sh. Jai Lal Sethi S/o Late Sh. Dev Dutt Sethi R/o No. 2561, Hsaban Lines, Kingsway Camp, Delhi-110009 has deeded and disowned 1. Kapil Sethi (Son) 2. Sheena Sethi (Daughter-in-law) 3. Isha Sethi (Grand daughter) 4. Narmu Sani (Daughter) 5. Sanjay Sani (Son-in-law) and 6. Jai Sani (Grandson) from his movable and immovable properties and severed his relations with them as they are not under the control of my client.

IndusInd Bank
43, Bhageria House, New Friends Colony, New Delhi - 110025
Below mention Vehicle will be auctioned by IndusInd Bank and general public are invited to bid latest by 14th February 2021, for these vehicles. These vehicle will be sold on 'as is where is basis'

गुमशुदा महिला की तलाश

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह महिला जिसका नाम: रीना अपनी बेटी नायब के साथ, पुत्र: सोनू, पता: मकान नं. 1-1/310, नई नगरी, दिल्ली, उम्र: लगभग 31 साल, ऊंचा: 5 फीट, रंग: गोरा, चेहरा: गोल, शरीर: पतला, पहनावा: नामालूम, जो दिनांक 09.01.2021 को अपने घर से लापता हो गयी है।

सार्वजनिक सूचना
न्यायालय श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय, जनपद बुलन्दशहर प्रकीर्ण वाद सं. 1242/2018

सार्वजनिक सूचना
न्यायालय श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय, जनपद बुलन्दशहर प्रकीर्ण वाद सं. 1242/2018

In The Court of Sh. Virender Singh, Administrative Civil Judge-Cum-Commercial Civil Judge-Cum-Addl. Rent Controller, (North District) Room No. 215, Rohini Courts, Delhi.

सनमान्य वरिष्ठ वकील वकील आर्डी-5 कायदा 1 व 2 न्यायालय श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय, जनपद बुलन्दशहर प्रकीर्ण वाद सं. 1242/2018

ASAHI INDIA GLASS LIMITED
CIN: L26102DL1904PLC019542
Registered Office: Unit No. 203-208, Tribhuvan Complex, Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi - 110 065. Phone: (011) 4945-4900

वीर अर्जुन समाचार क्यूरी
नई दिल्ली। पंत प्रवेशन मंत्री मनुसुख मंडाविया ने बुधवार को विपक्ष के इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार देश के प्रमुख बंदरगाहों को निजी हाथों में सौंपने का इरादा नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि बंदरगाहों का निजीकरण नहीं होगा और सरकार कर्मचारियों के कल्याण का ध्यान रखेगी।

In The Court of Sh. Virender Singh, Administrative Civil Judge-Cum-Commercial Civil Judge-Cum-Addl. Rent Controller, (North District) Room No. 215, Rohini Courts, Delhi.

Table with 4 columns: Reg. No., Model, Registration No., and Vehicle Description. Includes entries for TATA LPT 1615TC, MARUTI EECO GREEN 5 SEATER, and MARUTI SWIFT DZIRE TOUR.

दालों को नियमित आहार में शामिल करें: नायडू

नई दिल्ली (बीजेपी)। उपराष्ट्रपति एन. जैनेना नायडू ने देश में दलहन उत्पादन बढ़ाने पर किसानों का अभिनंदन करते हुए कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को दालों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। बी नायडू ने बुधवार को विश्व दलहन दिवस के अवसर पर वहाँ एक संदेश में कहा कि देश में दलहन का उत्पादन तेजी से बढ़ा है और इसके लिए किसान अभिनंदन के साथ ही बी नायडू ने कहा, उच्च दलहन दिवस पर आमंत्रण करना है कि प्रोटीन के स्रोत के रूप में दालों को अपने आहार में नियमित रूप से सम्मिलित करें।

NMS RESOURCES GLOBAL LIMITED
Consolidated Financial Results
Rs. In Lakhs, except Earning Per Share
SL. No. Particulars 31-Dec-20 (Unaudited) 30-Sep-20 (Audited) 31-Dec-19 (Unaudited) 31-Mar-20 (Audited)

ASAHI INDIA GLASS LIMITED
UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE THIRD QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31st DECEMBER, 2020
S.No. Particulars Quarter ended 31.12.2020 Period ended 31.12.2020 Quarter ended 31.12.2019

KEY STANDALONE FINANCIAL INFORMATION FOR THE THIRD QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31st DECEMBER 2020
S.No. Particulars Quarter ended 31.12.2020 Period ended 31.12.2020 Quarter ended 31.12.2019